



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102024-258073
CG-DL-E-19102024-258073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 36]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASHVINA 26, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2024

सं. 07-02/2023-एसईए-1.—राष्ट्रपति भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा समूह "क" के निम्नलिखित 11 (ग्यारह) अधिकारियों को वरिष्ठ लेखा अधिकारी से जूनियर टाइम स्केल (जेटीएस) में पदोन्नति के बाद पे-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) में उनके नाम के सामने उल्लिखित पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं: -

क्र. सं.	अधिकारी का नाम(श्री/सुश्री) और श्रेणी	पदोन्नति वर्ष	पदभार ग्रहण करने की तिथि
1.	राधा कृष्णा सबाटा (सामान्य)	पी-2024	01.03.2024
2.	एस एस वर्मा (सामान्य)	पी-2024	28.02.2024
3.	आर गीता कुमारी (सामान्य)	पी-2024	01.03.2024
4.	नागेश्वरी चन्द्रशेखर (सामान्य)	पी-2024	29.02.2024
5.	संजय शर्मा (सामान्य)	पी-2024	01.03.2024
6.	शांतनु सरकार (एससी)	पी-2024	28.02.2024

7.	बुद्धि बल्लभ जोशी (सामान्य)	पी-2024	01.03.2024
8.	शमशेर सिंह (एससी)	पी-2024	01.03.2024
9.	नीलाद्रिशेखर राय चौधरी (सामान्य)	पी-2024	15.04.2024
10.	सुकांत कुमार दास (सामान्य)	पी-2024	15.04.2024
11.	के उमा माहेश्वरी (एससी)	पी-2024	08.03.2024

आशा रानी रूंगटा, उप महानिदेशक (ईएंडटी)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2024

No. 07-02/2023-SEA-I.—The President is pleased to appoint, the following 11 (eleven), officers in the pay Level -10 (Rs.56,100 -1,77,500) of the Pay Matrix on regular basis consequent upon their promotion from Sr. Accounts Officers to Junior Time Scale (JTS) of Indian P&T Accounts and Finance Service Gr. "A" with effect from the date mentioned against their names:

S.No	Name of the officer & Category	Promotion year	Date of Joining
1	Radha Krushna Sabata (General)	P-2024	01.03.2024
2	S S Verma (General)	P-2024	28.02.2024
3	R Geetha Kumari (General)	P-2024	01.03.2024
4	Nageshwari Chandrashekhar (General)	P-2024	29.02.2024
5	Sanjay Sharma (General)	P-2024	01.03.2024
6	Santanu Sarkar (SC)	P-2024	28.02.2024
7	Buddhi Ballabh Joshi (General)	P-2024	01.03.2024
8	Shamsher Singh (SC)	P-2024	01.03.2024
9	Neeladrishekhar Ray Chowdhury (General)	P-2024	15.04.2024
10	Sukanta Kumar Das (General)	P-2024	15.04.2024
11	K Uma Maheshwari (SC)	P-2024	08.03.2024

ASHA RANI RUNGTA, Deputy Director General (E&T)